



उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल
Institute for Excellence in Higher Education (IEHE), Bhopal
(CPE Status conferred by UGC)



Office: Kaliasot Dam, Kolar Road, P.O. Box. 588, Ravishankar Nagar, Post Office, Bhopal – 462016
Tele: (0755) 2492433, 2492460, 2492492, Email: iehebhupal@mp.gov.in Website: www.iehe.ac.in

क्रमांक: Q1


भोपाल, दिनांक: 05.11.2021

अति-आवश्यक सूचना

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुडा भवन, भोपाल के पत्र में प्राप्त निर्देशों के पालनार्थ संस्थान में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि:

1. जिन विद्यार्थियों ने वैक्सीन की प्रथम डोज लगवाने के उपरांत द्वितीय डोज की निर्धारित अवधि के पश्चात भी अब तक वैक्सीन नहीं लगवाया है, उन्हें वैक्सीन की द्वितीय डोज तत्काल लगवाना आवश्यक है।
2. विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि यदि उनके पालक एवं परिवार के सदस्यों ने निर्धारित समय होने के पश्चात् भी वैक्सीन का द्वितीय डोज नहीं लगवाया है तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी निकट के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/टीकाकरण केन्द्र में उन्हें ले जाकर अनिवार्य रूप से वैक्सीन का द्वितीय डोज तत्काल लगवाएं।
3. विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि यदि उनके निवास के आस-पास के नागरिकों ने निर्धारित समय होने के पश्चात् भी वैक्सीन का द्वितीय डोज यदि नहीं लगवाया है तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी उन्हें प्रेरित करें कि वे शीघ्र निकट के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/टीकाकरण केन्द्र में जाकर अनिवार्य रूप से वैक्सीन का द्वितीय डोज लगवाएं।
4. विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि विद्यार्थी अपने सम्पर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह अवगत करायें कि प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सप्ताह के सातों दिवस वैक्सीन लगायी जाती है। वैक्सीनेशन तभी पूर्ण होता है जब व्यक्ति को दोनों डोज लग चुके हों तथा तभी व्यक्ति को कोविड से लड़ने की प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। अतः निर्धारित समय में वैक्सीन के द्वितीय डोज लगवाया जाना अत्यंत आवश्यक है।
5. समस्त विद्यार्थी अपनी वेक्सिनेशन सम्बन्धी जानकारी अपने एस.आई.एस. लॉगिन तथा ई-प्रवेश पोर्टल पर अद्यतन करें।
6. **विद्यार्थियों के लॉगिन पर वेक्सिनेशन सम्बन्धी जानकारी प्रदान करने हेतु गूगल फॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है। समस्त विद्यार्थी दिनांक: 06.11.2021 की रात्रि 12 बजे तक गूगल फॉर्म में जानकारी अनिवार्यतः भरकर सबमिट करें।**

नोट: संस्थान के समस्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को भी गूगल फॉर्म में चाही गयी जानकारी दिनांक: 06.11.2021 की रात्रि 12 बजे तक भरकर सबमिट करना अनिवार्य है।


(डॉ. प्रज्ञेश कुमार अग्रवाल)
संचालक

प्रतिलिपि:

1. समस्त विभागाध्यक्षों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
2. नोडल अधिकारी, आई.टी. की ओर संस्थान की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करने हेतु।
3. कार्यालयीन प्रति



संचालक